

आपातकालीन खाने के फायदे का आवंटन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

DSHS सादा खाना पाने वाले अधिकांश घटों को EBT कार्ड के ज़रिये खाने के अतिरिक्त फायदे जारी कर रहा है। यह मार्च और अप्रैल 2020 के फायदों के साथ शुरू हुआ था और मास-दर-मास आधार पर जारी रहेगा

ऐसा क्यों हो रहा है?

कांग्रेस ने अतिरिक्त फायदों को मंजूरी दी ताकि लोग ज्यादा खाना खरीद पाएं। इससे लोग बार-बार किराना सामान खरीदने के लिए खरीदी पर जाने से बच पाएंगे। इससे दुकानों में लोगों की भीड़ भी सीमित हो जाएगी और COVID-19 के संपर्क में आने का खतरा भी कम हो जाएगा।

मुझे अतिरिक्त लाभ कब मिलेगा?

इस कार्यक्रम को जारी करने की तारीखें फेडरल की मंजूरी और महीने का पहला दिन रविवार होने के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसका मतलब है कि आपको ये फायदें जल्द से जल्द महीने के दूसरे दिन मिल सकते हैं।

मैं इस महीने खाद्य सहायता के लिए आवेदन किया था। क्या मुझे अतिरिक्त लाभ मिलेगा?

अगर आप \$0 से ज्यादा के खाद्य सहायता लाभ के लिए पात्र हैं, तो आपको अपने परिवार के आकार के हिसाब से अधिकतम लाभ राशि मिलेगी, या, अगर आपका फायदा अधिकतम राशि से \$95 से कम है, तो आपको अपने लाभ के साथ अतिरिक्त \$95 मिलेंगे।

अधिकतम लाभ राशिकितनी है?

परिवार के पात्र सदस्य	अधिकतम लाभ
1	\$234
2	\$430
3	\$616
4	\$782
5	\$929
6	\$1,114
7	\$1,232
8	\$1,408
9	\$1,584
10	\$1,760
प्रत्येक अतिरिक्त	+\$176

मैं सादे खाने के लिए पात्र हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिलता। क्या मुझे अतिरिक्त लाभ मिलेगा?

नहीं। \$0 के लिए पात्र घर अतिरिक्त के लिए पात्र नहीं हैं।

मुझे वैध आप्रवासियों के लाभों से WASHCAP/माध्यमिक खाद्य सहायता/खाद्य सहायता मिलती है। क्या मुझे अतिरिक्त लाभ मिलेगा?

हां। अतिरिक्त लाभ सभी खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर लागू होता है।

(अगले पेज पर जारी)



मुझे कितना अतिरिक्त लाभ मिलेगा?

आपको आपके नियमित लाभ और आपके परिवार के आकारानुसार अधिकतम राशि के बीच का अंतर मिलेगा, या \$95, अगर आपका नियमित लाभ आपके परिवार के आकारानुसार अधिकतम राशि में \$95 के अंदर है। उदाहरण के लिए,

उदाहरण 1:

आप और आपका जीवनसाथी दोनों काम करते हैं और उन्हें 10 मई को कुल \$200 का खाद्य लाभ मिलता है। दो लोगों के परिवार के लिए अधिकतम आवंटन \$430 है। \$430 - \$200 होता है \$230। आपको अतिरिक्त लाभ में \$230 अतिरिक्त मिलेंगे। आपको अपनी नियमित तारीख, 10 मई को आपके आम \$200 के साथ ही \$230 अतिरिक्त मिलेंगे, इस प्रकार कुल \$430 मिलेंगे।

उदाहरण 2:

आप सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं और 17 मई को कुल \$210 पाते हैं। दो लोगों के परिवार के लिए अधिकतम आवंटन \$234 है। \$234 - \$210 होता है \$24। चूंकि \$24, \$95 से कम है, इसलिए आपको अतिरिक्त लाभ में \$95 अतिरिक्त मिलेंगे। आपको अपनी नियमित तारीख, 17 मई को आपके आम \$210 के साथ ही \$95 अतिरिक्त मिलेंगे, इस प्रकार कुल \$305 मिलेंगे।

उदाहरण 3:

आप और आपके 2 बच्चों की कोई आय नहीं है और आपको 13 मई को कुल \$616 का खाद्य लाभ मिलता है। तीन लोगों के परिवार के लिए अधिकतम आवंटन \$616 है। चूंकि आप अपने परिवार के आकारानुसार अधिकतम लाभ पा सकते हैं, तो आपको अतिरिक्त लाभ में अतिरिक्त \$95 मिलेंगे। आपको अपनी नियमित तारीख, 13 मई को आपके आम \$616 के साथ ही \$95 अतिरिक्त मिलेंगे, इस प्रकार कुल \$711 मिलेंगे।

क्या मुझे लाभों की वापस अदायगी करनी होगी?

ये अतिरिक्त लाभ आपके उपयोग के लिए ही हैं। आपको किसी भी वज़ह से इन्हें वापस नहीं करना है।

अगर मैं अतिरिक्त लाभों का उपयोग तुरंत न करूं, तो मैं उन्हें खो दूंगा?

नहीं। आपको अतिरिक्त और नियमित लाभों का उपयोग करने के लिए पिछली डेबिट गतिविधि की तारीख से 365 दिनों का समय दिया जाता है।

क्या इन अतिरिक्त लाभों से मेरे आप्रावासी स्टेटस पर असर पड़ेगा?

नहीं।

क्या DSHS हर महीने अतिरिक्त लाभ जारी करेगी?

हम समीक्षा करेंगे कि क्या हम आपको फेडरल मंजूरी के आधार पर हर महीने आपके पारिवारिक आकार के अनुसार अतिरिक्त लाभ दे सकते हैं।

जब मुझे अतिरिक्त लाभ मिलेगा, तो क्या DSHS मुझे पत्र भेजेगा? अगर मैं अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र नहीं रह गया, तो क्या DSHS मुझे पत्र भेजेगा?

नहीं। हम अतिरिक्त लाभ जारी करने या रोकने पत्र नहीं भेजते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कब आपका लाभ आपके खाते में आता है, तो आप अपने EBT कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना बैलेंस जांच सकते हैं या www.washingtonconnection.org पर अपने ग्राहक लाभ खाते का उपयोग कर सकते हैं।

क्या मुझे ग्राहक सेवा संपर्क केंद्र पर कॉल करना चाहिए?

हमें आम संख्या से बहुत ज्यादा कॉल मिलते रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अतिरिक्त लाभों के बारे में पूछताछ करने के लिए कॉल सेंटर में कॉल न करें।

[Facebook](#) और [Twitter](#) पर हमारे सोशल मीडिया खातों पर या www.dshs.wa.gov पर नवीनतम जानकारी जांचते रहें।